



## Imerys कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व घोषणापत्र

Imerys में हम उस दुनिया का सम्मान करते हैं जिसमें हम प्रचालन करते हैं। हम जिन देशों और समुदायों में व्यवसाय करते हैं, उनमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने, साथ ही ज़िम्मेदार पर्यावरणीय सेवकों की तरह काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं, अपने संबंधों और स्वयं को लगातार सुधारने के लिए साझा महत्वाकांक्षा के साथ सभी को एक साथ लाने के उद्देश्य से अपने समूह के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम **SustainAgility** के माध्यम से सतत विकास में योगदान करने के लिए सकारात्मक परिवर्तनों के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करें।

इस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व घोषणापत्र के तहत हम प्रतिबद्ध हैं:

### अपने लोगों को सशक्त बनाना

- चोट-मुक्त कार्यस्थल प्राप्त करने के लिए, अपने सभी भागीदारों के साथ, अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा संस्कृति और प्रणालियाँ विकसित करने और उनमें लगातार सुधार करने के लिए **यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य व सुरक्षा का स्थान सबसे पहले है।**
- हमारे व्यवसाय की आचार संहिता और नीति में निर्धारित किए गए अनुसार अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और श्रम पद्धतियों द्वारा अपने कर्मचारियों की प्रतिभा और कौशल में निवेश करके, रचनात्मक सामाजिक संवाद में शामिल होकर और कार्यस्थल विविधता की संस्कृति को प्रोत्साहित करके और परस्पर सम्मान आधारित समावेशन का सम्मान करके **अपनी मानव पूंजी को विकसित करना।**

### अपनी धरती की देखभाल करना

- प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को अधिकतम करने और जैव विविधता मूल्य का सृजन और संरक्षण करने के लिए पर्यावरणीय जोखिमों का आकलन करके और नियंत्रण उपायों में लगातार सुधार करके **ज़िम्मेदार पर्यावरणीय सेवकों की तरह काम करना।**
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और वैश्विक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन की रणनीति का कार्यान्वयन करके **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना।**

### भविष्य के लिए निर्माण करना

- कॉरपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखकर, उचित प्रचालन पद्धतियों का सम्मान और कार्यान्वयन करके, अपने सभी भागीदारों के साथ ज़िम्मेदारीपूर्ण खरीदारी सुनिश्चित करके और साझा किए गए मूल्यों, विशेष रूप से शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से अपने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर **अनुकरणीय व्यावसायिक आचरण सुनिश्चित करना।**
- समाज के लिए समाधानों का योगदान करने के लिए अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं की सततता का आकलन करके **अपने उत्पाद प्रबंधन के माध्यम से नवाचार करना।**



हम सतत सुधार चक्र के रूप में अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए अपने लक्ष्यों और अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता के व्यावहारिक परिणामों के बारे में अपने सभी हितधारकों को सूचित करते रहेंगे।

अलेजांड्रो डाज़ा  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
17 फरवरी 2020

IMERYS